

# Hindi writing Practice

## हिंदी लेखन अभ्यास

लेखन अभ्यास करने के लिए नीचे दिए वाक्यों पर पेंसिल चलाएं।

### भावनाएँ



आज मैं बहुत खुश हूँ।



आज मैं बहुत उदास हूँ।



आज मैं बहुत गुस्से में हूँ।



आज मैं बहुत परेशान हूँ।



आज मैं बहुत शांत में हूँ।



आज मैं बीमार में हूँ।